

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 1970/फाल्गुन 27, 1891

No. 102]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 1970/PHALGUNA 27, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 18th March 1970

S.O. 1101. Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 620/18A/IDRA/69, dated the 14th February, 1969, read with the Order of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 616 dated the 13th February, 1970, the management of the Industrial undertaking known as the New Maneckchock Spinning and Weaving Co. Ltd., Ahmedabad, had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order first mentioned above for a period upto and inclusive of 23rd March, 1970;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period upto and inclusive of the 9th April, 1970.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (85 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 9th April, 1970.

[No. F.9(115)/69-Tex(G).]

DEVINDAR NATH, Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1970

फा० आ० 1101—यतः भारत सरकार के विदेशी व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 616 दिनांक 13 फरवरी, 1970 के साथ पठित भारत सरकार के औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 620/18ए/आई० डी० आर० ए०/69 दिनांक 14 फरवरी, 1960 द्वारा न्यू मानक चौक स्पिनिंग एण्ड वीविंग क० लि०, ग्रहमदाबाद नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उपरोक्त दूसरे आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नयन्त्रक द्वारा 23 मार्च, 1970 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण 9 अप्रैल, 1970 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए बना रहना चाहिए ।

अतः, अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 ए की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निदेश देती है कि उपरिवर्णित दूसरे आदेश का प्रभाव 9 अप्रैल, 1970 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि तक के लिए और बना रहेगा ।

[सं० फा० 9(115)/69-टैक्स (जी)]

देवेन्द्र नाथ, संयुक्त सचिव ।